

व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (बी. बी. ए.)

सत्रीय कार्य
2025

जाँच सत्रीय कार्य की अवधि - 1st जनवरी 2025 से 30th दिसम्बर, 2025

चतुर्थ सत्र



प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली –1100 68



**व्यवसाय प्रशासन में स्नातक
(बी. बी. ए.)**

सत्रीय कार्य 2025

प्रिय छात्र/छात्राओं,

जैसा कि प्रोग्राम गाइड में बताया गया है, आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक ट्यूटर मार्कड असाइनमेंट करना होगा। हम आपको BCOE-143, BCOE-144, ECO-13 और BMP-001 के सत्रीय कार्य एक साथ भेज रहे हैं।

जैसा कि कार्यक्रम दर्शिका में स्पष्ट किया गया है, अंतिम परीक्षा में सत्रीय कार्य के लिए 30% अंक निर्धारित हैं। सत्रांत परीक्षा में बैठने योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि समय सूची के अनुसार आप इस सत्रीय कार्य को पूरा करके भेज दें। सत्रीय कार्य को करने से पहले आपको चाहिए कि कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसे आपके पास अलग से भेजा गया है।

1. वे छात्र जो जून 2025 के सत्रांत परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें 15 मार्च 2025 तक जमा करवाना होगा।
2. वे छात्र जो दिसम्बर 2025 की सत्रांत परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। वे 15 अक्टूबर 2025 तक जमा करवायें।

आपको सभी पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्य को अपने अध्ययन केंद्र के समन्वयक को प्रस्तुत करना होगा।

अध्यापक जांच सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम का कोड	:	बी. सी. ओ. ई. -143
पाठ्यक्रम का शीर्षक	:	वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व
सत्रीय कार्य का कोड	:	बी.सी.ओ. ई.-143/टी. एम. ए./2025
खण्डों की संख्या	:	सभी खण्ड

अधिकतम अंक : 100

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

खण्ड – क (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के हैं)

1. पूंजी परिसम्पत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल और अंतरपणन मूल्य निर्धारण सिद्धान्त क्या हैं ? उनके बीच अंतर बताएं। (10)
2. उपयुक्त उदाहरणों के साथ पूंजी बजट निर्णय लेने के लिए निवल वर्तमान मूल्य विधि(NPV) पर चर्चा करें। (10)
3. परिचालन चक्र में शामिल विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। सकल परिचालन पूंजी और निवल कार्यशील पूंजी के बीच भेद किजिए। (10)
4. पूंजी बजटिंग निर्णयों में शामिल विभिन्न प्रकार के जोखिमों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करें। (10)
5. इक्विटी की लागत की गणना के लिए विभिन्न विधियों की व्याख्या करें। (10)

खण्ड – ख (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के हैं)

6. उदाहरण देते हुए मुद्रा के भावी मूल्य और वर्तमान मूल्य का वर्णन कीजिए। (6)
7. भुगतान अवधि क्या है? भुगतान अवधि विधि का उपयोग करके स्वीकृति मानदंड बताएं। (6)
8. शेयरों के मूल्यांकन के लिए दोहरी पद्धति की व्याख्या करें। (6)
9. उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिनके अंतर्गत लाभांश घोषित नहीं किया जा सकता। (6)
10. फैक्टरिंग और फोरेफेटिंग की अवधारणाओं की व्याख्या करें। (6)

खण्ड – ग (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के हैं)

11. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें: (10)
(क) वित्तीय लीवरेज
(ख) गॉर्डन के लाभांश प्रभाव के मॉडल
12. निम्नलिखित के बीच अंतर करें: (10)
(क) इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर
(ख) निवल आय दृष्टिकोण और निवल परिचालन दृष्टिकोण